



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन 1934 (श०)
(सं० पटना 547) पटना, बृहस्पतिवार, 11 अक्टूबर 2012

सं० 4392

कारा निरीक्षणालय

गृह (कारा) विभाग

संकल्प

27 सितम्बर 2012

गृह (कारा) विभाग के अधीन राज्य अवस्थित काराओं में बंदियों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सक के 154 सृजित एवं स्वीकृत पदों पर अनुबन्ध के आधार पर चयन एवं नियोजन हेतु नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण के लिए निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2362, दिनांक 30.05.2011 में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- (i) MBBS की डिग्री के लिए 50 अंक, अनुभव के लिए 30 अंक तथा अर्न्तवीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित किया जाता है। यदि दो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रतिशत समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ii) सभी कोटि के चिकित्सकों के लिए नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
- (iii) सिर्फ MS/ MD के डिग्रीधारी चिकित्सक ही विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर चयन के पात्र होंगे।
- (iv) यदि विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिक्तियाँ विशिष्ट योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सकेगी तो उस हालत में उन रिक्त पदों पर सामान्य चिकित्सक (MBBS योग्यता प्राप्त) को

भी अनुबन्ध के आधार पर लिया जा सकेगा, परन्तु उसके लिए अनुबन्ध की राशि रु0 30,000=00 (तीस हजार) ही होगी।

पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2362, दिनांक 30.05.2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय, शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी प्रसाद चौहान,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 547-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>